

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2017—श्रावण 12, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016- क्रेडिट II दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017 मौसम खरीफ के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष  
2017 में प्रति हेक्टेयर बीमित राशि (ऋणमान)**

क्रं.	जिला	फसल	पूर्व स्वीकृत फसल ऋणमान	स्वीकृत फसल ऋणमान
1	हरदा	सोयाबीन	31500	31500
		तुअर	23000	31000
		धान सिंचित	28000	40000
		धान असिंचित	22100	25000
		ज्वार	10000	24000
		उडद, मूंग	22000	23000
		कपास	18500	20000
		मक्का देशी	14700	24000
		मक्का हाइब्रिड	21600	30000

क्रं.	जिला	फसल	पूर्व स्वीकृत फसल ऋणमान	स्वीकृत फसल ऋणमान
2	होशंगाबाद	सोयाबीन	31500	31500
		तुअर	23000	31000
		धान सिंचित	28000	40000
		धान असिंचित	22100	25000
		ज्वार	10000	24000
		उडद, मूंग	22000	23000
		कपास	18500	20000
		मक्का देशी	14700	24000
		मक्का हाइब्रिड	21600	30000

क्रं.	जिला	फसल का नाम	स्केल ऑफ फायनेस (अल्पकालिक ऋणमान)
3	शिवपुरी	सोयाबीन	24000
		मूंगफली	34000
		धान	34000
		मक्का	24000
		मूंग	22000
		उडद	22000
		अरहर	22000
		तिल	11000
		ज्वार	17000
		बाजरा	16000

क्रं.	जिला	खरीफ फसल	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित ऋणमान (अल्पकालिक ऋणमान) प्रति हेक्टर राशि रु. में
4	शहडोल	धान सिंचित	26250
		धान असिंचित	21000
		मक्का	14000
		उडद मूंग	21000
		अरहर	24500
		सोयाबीन	26250
		कोदो कुटकी	13125
		ज्वार	7700
		तिल	18900

क्रं.	जिला	मौसम / वर्ष	फसल	स्केल आफ फायनेंस (अल्पकालिक ऋणमान) प्रति हैक्टर
5	शयोपुर	खरीफ	बाजरा	24300
			मक्का	32076
			धान	43474
			अरहर	32500
			उडद	23600
			सोयाबीन	34340
			थतल	20800

क्रं.	जिला	मौसम / वर्ष	फसल का नाम एवं प्रकार	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित स्वीकृत ऋणमान (प्रति हे.) (रु. में)
6	देवास	खरीफ 2017	ज्वार संकर	19000
			मक्का संकर	20000
			कपास बीटी	35000
			सोयाबीन	30000
			मूंगफली	15000
			उडद / मूंग	15000
			अरहर / तुवर	15000

क्रं.	जिला	मौसम / वर्ष	फसल	स्वीकृत ऋणमान प्रति हेक्टर (राशि रूपये में)
7	सीधी	खरीफ 2017	धान सिंचित	40860
			धान असिंचित	30855
			ज्वार बाजरा	23923
			मक्का	29856
			तिल	23597
			अरहर	30411
			कोदो कुटकी	15803
			उडद	21735
			मूंग	21328
			सोयाबीन	37734
			मूंगफली सिंचित	34120
			कपास	42454

क्रं.	जिला	फसल	उपज के आधार पर 35 प्रतिशत हेक्टर अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु भुगतान क्षमता		
			नगद	वस्तु	योग
8	रीवा	धान असिंचित	7665	7665	15330
		धान सिंचित	12285	12285	24570
		अरहर (तुअर)	9975	9975	19950
		मूंग / उडद	7980	7980	15960
		तिल	7000	7000	14000
		सोयाबीन	16800	16800	33600
		कोदो कुटकी	4489	4489	8978
		मक्का	5513	5513	11026
		ज्वार	3868	3868	7736

क्रं.	जिला	मौसम / वर्ष	फसल	स्केल ऑफ फायनेंस (अल्पकालिक ऋणमान)
9	खण्डवा	खरीफ 2017	कपास बीटी	50000
			सोयाबीन	40000
			मूंगफली	30000
			ज्वार शंकर	20000
			मक्का	25000
			बाजरा	20000
			धान	20000
			तुअर / अरहर	35000
			मूंग	20000
			उडद	20000
			तिल्ली	24000

क्रं.	जिला	खरीफ फसल	खरीफ 2017 हेतु फसल ऋणमान निर्धारण प्रति हेक्टेयर
			स्वीकृत अल्पकालीन ऋण साख सीमा 70 %
10	अनूपपुर	धान सिंचित	26250
		धान असिंचित	21000
		संकर मक्का	14000
		उडद मूंग	21000
		अरहर	24500
		सोयाबीन	26250
		कोदो कुटकी	13125
		तिल	18900
		ज्वार	7700

क्रं.	जिला	फसल	प्रति हेक्टर निर्धारित ऋणमान
11	भोपाल	सोयाबीन	33000
		ज्वार	22000
		मक्का	23000
		मूंग / उडद	23000
		तुअर / अरहर	32000
		धान	40000

क्रं.	जिला	मौसत / वर्ष	फसल	ऋणमान प्रति हेक्टर
12	मुरैना	खरीफ 2017	ज्वार	28150
			बाजरा	24300
			मक्का	320765
			धान	43474
			अरहर	32500
			मूंग	23600
			उडद	23600
			सोयाबीन	34340
			मूंगफली	46250
			तिल	20800

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016- क्रेडिट II दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017 मौसम खरीफ के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

क्रं.	जिला	खरीफ फसलें	दि. 03.04.2017 को जिला स्तरीय तकनीकी समूह कमेटी द्वारा अ.अ.कृषि के.सी.सी. के पुर्ननिर्धारित स्वीकृत ऋणमान (प्रति हेक्टेयर राशि रु में)
			योग
1	बुरहानपुर	कपास बीटी	50000
		सोयाबीन	40000
		मूंगफली	30000
		ज्वार शंकर	20000
		शंकर मक्का	25000
		बाजरा	20000
		धान	20000
		अरहर (तुअर)	35000
		मूंग	20000
		उड़द	20000
		तिल्ली	24000



क्रं.	जिला	खरीफ फसल	स्वीकृत अल्पकालीन ऋण साख सीमा 70%
2	उमरिया	धान सिंचित	26250
		धान असिंचित	21000
		मक्का	14000
		उडद मूंग	21000
		अरहर	24500
		सोयाबीन	26250
		कोदो कूटकी	13125
		ज्वार	7700
		तिल	18900